



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 12—मई 18, 2012 (वैसाख 22, 1934)

No. 19]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12 —MAY 18, 2012 (VAISAKHA 22, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. ए. 22017/1/2009-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री पंकज पचौरी को प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में कम्युनिकेशन सलाहकार (भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक और वेतनमान में) दिनांक 18 जनवरी, 2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती हैं।

2. श्री पंकज पचौरी की प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति, सह-समाप्य आधार पर अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं. ए. 22017/1/2009-पीएमई (वाल्क्यूम-II)-- सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री हरीश खरे का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप, उन्होंने दिनांक 21.01.2012 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री के मीडिया सलाहकार के पद (प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में) का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अप्रैल 2012

सं. आरएस/6/5/2012/32-कार्मिक--श्री परितोष भट्टाचार्य, जिन्हें राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप नेता (श्री एस.एस. अहलुवालिया) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान के आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाओं को 2 अप्रैल, 2012 से समाप्त किया जाता है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 20 अप्रैल 2012

सं. आरएस/6/1/2012/35-कार्मिक--श्री गुरदीप सिंह सप्पल, जिन्हें राज्य सभा के माननीय सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान के आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाओं को 10 अप्रैल, 2012 के अपराह्न से समाप्त किया जाता है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस/6/4/2012/36-कार्मिक--कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी की पुनर्नियुक्ति के परिणामस्वरूप, उनके वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में श्रीमती शिशा मुखर्जी की नियुक्ति 9 अप्रैल, 2012 से नवीकृत की जा रही है।

2. श्रीमती शिशा मुखर्जी की नियुक्ति कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. आरएस 3/2/1/2012/37-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अनुसंधान सहायक श्री पीयूष सोपर्णा को 26 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में रु. 15,600--39,100/-/- के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन में नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 अप्रैल 2012

सं. ए-35013/1/2011-(प्रशा.) खण्ड-II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में डॉ. भाष्यम कस्तुरी को वेतन बैंड-3 के वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600/- में संविदा आधार पर दिनांक 13 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए (एक वर्ष की परीक्षा-अवधि सहित) या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, संयुक्त-निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम.एस.एस. नायर, उप सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. ए-22016/1/2012-I--राष्ट्रपति, द्वारा अप्रैल 09, 2012 के पूर्वाह्न से श्री सुदर्शनम श्रीनिवासन, आईएस (ओआर:80) को अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में नियुक्त किया जाता है।

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. ए-20012/84/83.प्रशा.3--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के

श्री चोखे लाल कदम, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) दिनांक 30.04.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं. ए-32014/01/2010-प्रशा. 3--राष्ट्रपति जी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों को चयन सूची वर्ष 2010 के विरुद्ध वेतन ढांचा पी.बी.-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में दिनांक 20.03.2012 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्र सं.	नाम	श्रेणी	जन्म तिथि	निजी सचिव ग्रेड में चयन सूची वर्ष
1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती/कुमारी				
1.	डी.के. राजवंशी	सामान्य	22.11.1953	1991
2.	एम.के. तलवार	सामान्य	10.06.1964	1991
3.	आर.के. अरोड़ा	सामान्य	10.03.1960	1991
4.	रमिन्दर कौर	सामान्य	31.10.1952	1992
5.	बी. अरुमुघन	सामान्य	01.09.1953	1993
6.	ए.एस. रावत	सामान्य	20.05.1956	1993
7.	विमला गुवालानी	सामान्य	31.01.1959	1993
8.	शायरा ए. खान	सामान्य	15.07.1956	1993
9.	आशा लता गुप्ता	सामान्य	29.04.1957	1994
10.	सुधा शर्मा	सामान्य	07.08.1958	1994
11.	माधुरी एन. शेन्दे	सामान्य	15.07.1958	1994
12.	सी.एल. कदम	सामान्य	03.04.1952	1995
13.	शारदा कपूर	सामान्य	17.02.1959	1995
14.	सी.के. शशी	सामान्य	31.03.1960	1996
15.	एन.के. वशिष्ठ	सामान्य	10.05.1958	1996
16.	लुसी बारा	अ.ज.जा.	02.04.1968	2001
17.	शान्ता देवी (सुश्री)	अ.जा.	13.01.1964	2003
18.	प्रमिला	सामान्य	01.01.1957	1997

1	2	3	4	5
19.	डी.एल. चावला	सामान्य	18.11.1953	1997
20.	लता अशोकन	सामान्य	03.12.1966	1998

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारियों की वरीयता क्रम उनकी नियुक्ति की तिथि को ध्यान दिए बिना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) के संलग्नक में दर्शाए गए क्रम के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 अप्रैल 2012

सं. ए-19018/01/2010-प्रशा.-I--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री पंकज जैन, आईएएस (जम्मू और कश्मीर: 1978) की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया है। उनकी यह नियुक्ति उनके द्वारा धारित अपर सचिव के पद के अस्थायी उन्नयन द्वारा स्वस्थाने आधार पर दिनांक 17.04.2012 से प्रभावी होगी।

के.आर. शर्मा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अप्रैल 2012

सं. ए-19/जी-ए/98--श्री यशवीर सिंह, (आई.ई.एस.: 95), जिनकी सेवाएं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 09.09.2009 की संदर्भ सं. 2/2/2005-ई.ओ. (एम. एम.-I) तथा रसायन एवं पैट्रोलसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 10.09.2009 के कार्यालय आदेश सं. 202 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई थी, को उनका कार्यकाल पूरा होने के उपरान्त, एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में निदेशक के पद से, पर्यटन मंत्रालय में निदेशक के रूप में अपने नए पदभार को ग्रहण करने के लिए दिनांक 19.04.2012 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

बी.सी. पात्रा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2012

सं. ए. 32014/1/2005-प्रशा.-I (वि.वि.)--सक्षम प्राधिकारी सहर्ष, श्री बहादुर सिंह सहायक (विधि) को विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में अधीक्षक (विधि) के पद पर रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में 27.03.2012 की पूर्वाह्न से छह माह की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अधीक्षक (विधि) के ग्रेड में न तो नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम.आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. ए-12025/02/2010/प्रशा.-I (वि.का.)--विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री संतोष रमन्ना के. को दिनांक 26 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से इस विभाग के मुंबई स्थित शाखा सचिवालय में वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित स्थानापन्न रूप से अधीक्षक (विधि) के पद (समूह 'ख' राजपत्रित पद) पर नियुक्त करते हैं।

एम.के. शर्मा, अपर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 मार्च 2012

सं. के. 11019/3/2012-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री जय नारायण पटेल अवकाश पर चले जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति के दौरान, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री पिनाकी चन्द्र घोष को दिनांक 05.03.2012 से 16.03.2012 (दोनों दिन शामिल हैं) तक, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. के. 11017/01/2012-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री अभय मनोहर सप्रे, को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को या उससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

सं. के. 11017/02/2012-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री कंवलजीत सिंह आहलुवालिया को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को या उससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

दिनांक 13 अप्रैल 2012

सं. के. 13012/03/2011-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री विशनू चन्द्र गुप्ता को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे से दो वर्ष की अवधि के लिए, (2) श्री मोहम्मद ताहिर को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे से दो वर्ष की अवधि के लिए, (3) श्री मुशफ़्फ़े अहमद को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक, (4) श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे से दो वर्ष की अवधि के लिए, (5) श्री सईदुज्जमाँ सिद्दीकी को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक, (6) श्री आदित्य नाथ मित्तल को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे से दो वर्ष की अवधि के लिए, (7) श्री महेन्द्र दयाल को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, (8) श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे से दो वर्ष की अवधि के लिए, (9) श्री हेत सिंह यादव को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे से दो वर्ष की अवधि के लिए, (10) श्री अनिल कुमार शर्मा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे से दो वर्ष की अवधि के लिए, (11) श्री अनुराग कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 तक, उसी वरीयता क्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

दिनांक 18 अप्रैल 2012

सं. के. 11019/3/2012-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायविद् श्री रंजन गोगोई की नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में होने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का कार्यभार छोड़ने की तारीख से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायविद् श्री महेश मित्तल कुमार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13011/02/2012-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री रंजन गोगोई को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2012

सं. पी एफ/जी/245-प्रशा.-V--राष्ट्रपति, श्री दिनेश कुमार सिंह को 19 मार्च 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, गृह मंत्रालय में वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रु.) तथा 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन में निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 अप्रैल 2012

सं. I-12015/2/2009-आई.पी.एस.-IV--केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम-5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में आबंटित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित संवर्ग आबंटित करती है :--

क्रम सं.	रैंक सं.	अभ्यर्थी का नाम	गृह राज्य	आबंटित संवर्ग
1	2	3	4	5
सर्वश्री				
1.	3	आर. वी. वरुण कुमार	तमिलनाडु	तमिलनाडु
2.	84	नानक सिंह	पंजाब	पंजाब
3.	86	भुवन भुषण यादव	राजस्थान	राजस्थान
4.	87	सुश्री देवंगी स्वर्णकर	महाराष्ट्र	राजस्थान
5.	90	डी. कृष्णा भास्कर	केरल	आंध्रप्रदेश
6.	93	घनश्याम बंसल	दिल्ली	ए.जी.एम.यू.टी.
7.	95	अभिषेक कुमार सिंह	बिहार	गुजरात
8.	99	दीपक गौरी	दिल्ली	ए.जी.एम.यू.टी.
9.	104	पिनाक मिश्र	ओड़िशा	ओड़िशा
10.	105	भुशारपु सत्य येशुबाबु	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
11.	106	राहुल पाण्डेय	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
12.	108	अजय कुमार	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
13.	109	हिमांशु गुप्ता	दिल्ली	हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4	5
		सर्वश्री		
14.	110	कार्तिक रेड्डी	कर्नाटक	कर्नाटक
15.	112	गौरव गर्ग	दिल्ली	पंजाब
16.	113	हर किशोर राय	उत्तर प्रदेश	बिहार
17.	116	जोयसर हितेश कुमार हंसराज	गुजरात	गुजरात
18.	130	देशमुख पंकज अशोकराव	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
19.	131	मंगेश कुमार	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड
20.	136	संदीप सिंह	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
21.	137	सुश्री उषा रंगनानी	उत्तर प्रदेश	ए.जी.एम.यू.टी.
22.	139	अभिषेक मोहन्ती	ओड़िशा	आंध्र प्रदेश
23.	141	अक्कनौर प्रसाद प्रलाध	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
24.	144	आनन्द शर्मा	राजस्थान	राजस्थान
25.	147	प्रियदर्शी आलोक	बिहार	झारखण्ड
26.	148	सिद्धार्थ सिहाग	हरियाणा	पंजाब
27.	150	विवेक शील सोनी	पंजाब	पंजाब
28.	151	सुश्री उर्वीजा गोयल	उत्तर प्रदेश	ए.जी.एम.यू.टी.
29.	153	तरुण कुमार दुग्गल	गुजरात	गुजरात
30.	155	चन्दन कुमार झा	बिहार	झारखण्ड
31.	158	सुश्री निशा शेखर	दिल्ली	तमिलनाडु
32.	160	अजय पॉल	पंजाब	उत्तर प्रदेश
33.	164	पाटिल विनायक वसन्तराव	महाराष्ट्र	कर्नाटक
34.	166	आदित्य प्रताप सिंह	राजस्थान	मध्य प्रदेश
35.	168	रजत बंसल	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
36.	169	मोहम्मद इमरान	बिहार	उत्तर प्रदेश
37.	170	सुनप्रीत सिंह	पंजाब	आंध्र प्रदेश
38.	171	अरिजीत सिन्हा	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
39.	172	शैलेश कुमार पाण्डेय	बिहार	उत्तर प्रदेश
40.	173	इंगित प्रताप सिंह	उत्तर प्रदेश	ए.जी.एम.यू.टी.
41.	175	अमोघ जीवन गाओंकर	कर्नाटक	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
		सर्वश्री		
42.	176	सुश्री रूचिका कटयाल	हरियाणा	ए.जी.एम.यू.टी.
43.	177	वेंकट अप्पालानाडू चिंतम	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
44.	180	सयद आबिद रसीद शाह	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
45.	182	समीर शर्मा	जम्मू व कश्मीर	ए.जी.एम.यू.टी.
46.	183	सौरभ मिश्र	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
47.	184	लोधा राहुल कुमार इंद्रचन्द	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश
48.	187	जफर अजमल किदवाई	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
49.	188	नारायणन टी.	केरल	केरल
50.	191	सुश्री इशा पन्त	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
51.	192	कुलदीप कुमार आर. जैन	तमिलनाडु	कर्नाटक
52.	194	जयन्त चक्रवर्ती	पश्चिम बंगाल	ओड़िशा
53.	201	स्वप्निल ममगाई	उत्तराखण्ड	उत्तर प्रदेश
54.	203	सुश्री वन्दिता पाण्डेय	उत्तर प्रदेश	तमिलनाडु
55.	205	गौरव लाल	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
56.	209	सन्तोष हदिमणि	कर्नाटक	तमिलनाडु
57.	210	इन्दिरा कल्याण इलसेला	आन्ध्र प्रदेश	छत्तीसगढ़
58.	211	यथीश चन्द्र जी.एच.	कर्नाटक	केरल
59.	212	मोहनीश मिश्र	उत्तर प्रदेश	असम-मेघालय
60.	214	प्रतीश कुमार	उत्तर प्रदेश	केरल
61.	217	सुश्री प्रीत गणपति	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश
62.	220	सुश्री शिवानी तिवारी	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
63.	221	अम्बरकर श्रीराम दिनकर	महाराष्ट्र	जम्मू व कश्मीर
64.	222	श्रीहरि पाण्डेय	बिहार	पश्चिम बंगाल
65.	223	अभिषेक मोदी	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
66.	225	आनन्द मिश्र	पश्चिम बंगाल	असम-मेघालय
67.	227	भोलानाथ पाण्डेय	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
68.	234	सत्य प्रकाश	बिहार	बिहार

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		सर्वश्री					सर्वश्री		
69.	236	अभिषेक गुप्ता	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	98.	364	असित यादव	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
70.	237	सुश्री पाटिल मोक्षदा अनिल	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	99.	369	सन्तोष कुमार सिंह	उत्तर प्रदेश	छत्तीसगढ़
71.	238	प्रणव तायल	दिल्ली	ए.जी.एम.यू.टी.	100.	371	राकेश कुमार	उत्तर प्रदेश	बिहार
72.	239	पी. राजा	तमिलनाडु	कर्नाटक	101.	374	दीपक यादव	हरियाणा	ए.जी.एम.यू.टी.
73.	240	अंकुर जैन	मध्य प्रदेश	असम-मेघालय	102.	385	संजय कुमार सैन	राजस्थान	ए.जी.एम.यू.टी.
74.	242	पंकज कुमार द्विवेदी	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	103.	389	कुमार गौतम	बिहार	पश्चिम बंगाल
75.	243	सुश्री शंकरन सुभाषिनी जगदीशन	महाराष्ट्र	असम-मेघालय	104.	396	अरुण धम्भुराज ए.	तमिलनाडु	ए.जी.एम.यू.टी.
76.	244	अन्नामलाई के.	तमिलनाडु	कर्नाटक	105.	399	बट्टुला गंगाधर	आन्ध्र प्रदेश	ओड़िशा
77.	251	सुश्री मनीषा चौधरी	राजस्थान	हरियाणा	106.	400	अजीत सिंह यादव	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
78.	260	अम्बुराजन के.के.एन.	तमिलनाडु	आन्ध्र प्रदेश	107.	401	कार्तिकेयन के.	तमिलनाडु	असम-मेघालय
79.	274	बाबुजी अट्टाडा	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	108.	403	सुर्य प्रताप यादव	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
80.	286	बी. गंगाधर	आन्ध्र प्रदेश	तमिलनाडु	109.	405	इल्यास के.पी.ए.	केरल	नागालैण्ड
81.	288	परविन्दर सिंह	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	110.	409	सुश्री अंजुम आरा	उत्तर प्रदेश	मणिपुर-त्रिपुरा
82.	289	माण्डलिक चैतन्य रविन्द्र	महाराष्ट्र	गुजरात	111.	411	सन्तोष बाबु के.	कर्नाटक	कर्नाटक
83.	304	मुरली रम्भा	आन्ध्र प्रदेश	तमिलनाडु	112.	416	प्रवीण मुंढे	महाराष्ट्र	मणिपुर-त्रिपुरा
84.	307	पी.एस.सी. कल्याण	आन्ध्र प्रदेश	तमिलनाडु	113.	472	अभिषेक सिंह	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
85.	314	कार्तिक के.	तमिलनाडु	केरल	114.	488	दीपक हिलोरी	उत्तर प्रदेश	पंजाब
86.	315	शंकर चौधरी	झारखण्ड	ए.जी.एम.यू.टी.	115.	491	मंजुनाथ हुच्यप्पा सिंगे	कर्नाटक	महाराष्ट्र
87.	317	देव रंजन वर्मा	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	116.	524	सुश्री सरोज कुमारी	राजस्थान	गुजरात
88.	322	फटिंग राहुल हरिदास	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	117.	532	राकेश चन्द्र कलासागर एम.	आन्ध्र प्रदेश	महाराष्ट्र
89.	328	गौरव यादव	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	118.	548	अभिषेक जोरवाल	राजस्थान	हरियाणा
90.	329	श्रीधर जी.	तमिलनाडु	महाराष्ट्र	119.	559	विनोद कुमार	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
91.	331	आशिष भारती	बिहार	बिहार	120.	569	प्रणय अशोक	उत्तर प्रदेश	महाराष्ट्र
92.	340	सुश्री प्रतीक्षा गोदरा	राजस्थान	ए.जी.एम.यू.टी.	121.	577	महारावम प्रदीप सिंह	मणिपुर	मणिपुर-त्रिपुरा
93.	343	मनोज कुमार	हरियाणा	हरियाणा	122.	579	सुश्री भगत प्रियंका नवनाथ	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
94.	347	एस. चैतन्य	आन्ध्र प्रदेश	महाराष्ट्र	123.	600	सुश्री शालिनी	दिल्ली	उत्तर प्रदेश
95.	359	हरि शंकर	केरल	केरल	124.	603	सुश्री गुगुलोथ अमृता	आन्ध्र प्रदेश	ए.जी.एम.यू.टी.
96.	361	कौशल कुमार	बिहार	महाराष्ट्र	125.	636	ससीमोहन वी.	तमिलनाडु	तमिलनाडु
97.	363	रियाज इकवाल	केरल	मध्य प्रदेश	126.	656	सुश्री जया राय	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड
					127.	661	मदन मोहन मीणा	राजस्थान	पंजाब
					128.	670	राजेश एस.	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
					129.	671	राजेन्द्र कुमार मीणा	राजस्थान	हरियाणा

1	2	3	4	5
		सर्वश्री		
130.	678	हेमन्त कुटियाल	उत्तराखण्ड	उत्तर प्रदेश
131.	679	डी. प्रदीप कुमार	आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश
132.	681	रमन कुमार मीणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश
133.	689	सुश्री मेश्राम स्वप्ना गौतम	महाराष्ट्र	हिमाचल प्रदेश
134.	698	मनोज सी.	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
135.	703	आदित्य कुमार	उत्तर प्रदेश	बिहार
136.	707	अनन्तनाग वी.एस.आर.	आन्ध्र प्रदेश	पश्चिम बंगाल
137.	708	सुश्री सोनकावड़े सोनाल लक्ष्मीदास	महाराष्ट्र	मणिपुर-त्रिपुरा
138.	718	सुश्री सिमल प्रसाद	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
139.	720	राजेन्द्र कुमार भील	राजस्थान	बिहार
140.	721	फक्कीरप्पा कागिनेल्ली	कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश
141.	732	बनोत जुगल किशोर कुमार	आन्ध्र प्रदेश	ओड़िशा
142.	735	शिव प्रसाद येल्लासिरी	आन्ध्र प्रदेश	सिक्किम
143.	744	शंकर ब्रत रैमेधी	असम	असम-मेघालय
144.	749	कोटेश्वर राव नालावत	आन्ध्र प्रदेश	पश्चिम बंगाल

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2012

सं. आई-14011/26/2011-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 18.04.2012 को चयन समिति की दिनांक 18.12.2011 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2010 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के गुजरात संवर्ग में वर्ष 2012 में कुल 17 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु गुजरात पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	आर. एस. भागोरा	01.06.1959
2.	आर. जे. पारगी	01.06.1959

1	2	3
	सर्वश्री	
3.	पी. एल. मल	13.02.1968
4.	एम. एल. निनमा	01.06.1966
5.	पी. सी. बरान्दा	01.06.1959
6.	एम. एस. भाभोर	01.06.1962
7.	जी. बी. बरोत	15.04.1959
8.	आर. एफ. संगदा	15.03.1960
9.	बी. आर. पण्डोर	12.09.1962
10.	एन. एन. चौधरी	18.02.1968
11.	ए. जी. चौहान	11.04.1967
12.	एम. के. नायक	24.10.1961
13.	आर. बी. असारी	23.05.1971
14.	वी. बी. चौधरी	01.06.1956
15.	के. एन. दामोर	29.11.1967
16.*	जे. बी. मण्डाविया	14.10.1956
17.**	एन. के. अमीन	21.08.1958

\*क्रम सं. 16 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के अध्यधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

\*\*क्रम सं. 17 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक एवं अपराधिक मामलों के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के अध्यधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

2. उपर्युक्त चयन सूचियां श्री जी. बी. बरोत द्वारा दायर एस.सी.ए. सं. 16834/2007 जो माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, में लम्बित है, के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई-14011/26/2011-आईपीएस-1 (II)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग)

विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत गुजरात संवर्ग प्रदान करते हैं :—

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	आर. एस. भागोरा	01.06.1959
2.	आर. जे. पारगी	01.06.1959
3.	पी. एल. मल	13.02.1968
4.	एम. एल. निनमा	01.06.1966
5.	पी. सी. बरान्दा	01.06.1959
6.	एम. एस. भाभोर	01.06.1962
7.	जी. बी. बरोत	15.04.1959
8.	आर. एफ. संगदा	15.03.1960
9.	बी. आर. पण्डोर	12.09.1962
10.	एन. एन. चौधरी	18.02.1968
11.	ए. जी. चौहान	11.04.1967
12.	एम. के. नायक	24.10.1961
13.	आर. बी. असारि	23.05.1971
14.	बी. बी. चौधरी	01.06.1956
15.	के. एन. दामोर	29.11.1967

2. उपर्युक्त चयन सूचियां श्री जी. बी. बरोत द्वारा एस.सी.ए. सं. 16834/2007 जो माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, में लम्बित है, के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2012

सं. 12/27/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, सुश्री शेरिंग यांगज़ोम दास, आईएसएस (असम मेघालय : 82) को पे बैंड 37,400--67,000/- रुपये (पीबी-4) + 10,000/- रुपये ग्रेड पे में दिनांक 23.04.2012 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोलि चलई, निदेशक

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. 14012/18/2011-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति गुजरात संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करती हैं :—

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तिथि
	सर्वश्री/सुश्री		
1.	सुश्री आर्द्रा अग्रवाल	2007	18.08.2009
2.	राणा दिलीप कुमार भूराराम	2007	18.08.2009
3.	रवि शंकर	2007	18.08.2009
4.	रेम्या मोहन मूथादथ	2007	18.08.2009
5.	सागले संदीप जनार्दनपंत	2007	18.08.2009

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2012

शुद्धि-पत्र

सं. 14015/24/2011-अ.भा.से. (I)--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 14015/24/2011-अ.भा.से. (I)-क तथा सं. 14015/24/2011-अ.भा.से. (I)-ख, दिनांक 13 जनवरी, 2012 के आंशिक संशोधन में पैरा 2 को निम्नलिखित के अनुसार जोड़ा गया है।

2. उपर्युक्त चयन समिति की बैठक की अनुशंसाएं, ओ.ए. सं. 1257/2011 (प्रणव कुमार पॉल बनाम पश्चिम बंगाल एवं अन्य) के अंतिम निर्णय के अध्यधीन हैं।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. ए-20016/05/75-प्र.सु. (प्रशा. I)--राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सीएस-II द्वारा श्री वी. के. नथानी का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) हेतु वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें केन्द्रीय सचिवालय



आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के रूप में दिनांक 30.03.2011 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/2/2011-प्र.सु. (प्रशा. I)--राष्ट्रपति, श्री शशि शेखर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 81) को दिनांक 20 अप्रैल, 2012 की पूर्वाह्न से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2012

सं. 31 : (फा. सं. ए-38012/1/2012-प्रशा. I)--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी श्री एस. के. देव, जो राजस्व विभाग में उप-सचिव के रूप में तैनात थे दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 32 : (फा. सं. ए-38012/3/2012-प्रशा. I)--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी श्री लाभ सिंह चाने, जो राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में तैनात थे दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 33 : (फा. सं. ए-38014/1/2012-प्रशा. I)--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी श्री एम. एस. कैथ, जो राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात थे दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 34 : (फा. सं. ए-38013/1/2012-प्रशा. I)--भारतीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क सेवा के एक अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, जो राजस्व विभाग में तकनीकी अधिकारी के रूप में तैनात थे दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2012

सं. 2/2012 : (फा. सं. ए-32011/02/2001)-प्रशा. VI-ओ ए सं. 30/2011 में माननीय कैट, जोधपुर खडपीठ, जोधपुर के दिनांक 3.5.2011 के आदेश के अनुपालन में, श्री राम अवतार वर्मा (85072), वर्तमान में आयकर उपायुक्त को एतद्वारा दिनांक 24.10.2000 से 21.04.2009 तक 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान (पूर्व-संशोधित) में प्रवर ग्रेड गैर-कार्यात्मक) में रखा जाता है।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2012

सं. ए-12026/5/2010-एड.-I--राष्ट्रपति, श्री के. एस. आर. बी. एस. चलम, आई ई एस (81) को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड (पी.बी.-4) + रु. 10,000/- (ग्रेड वेतन) में 19 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. ए-12011/02/2012-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 की पूर्वाह्न से श्री संजीव कुमार, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (सीएवंसीई:1993) को वेतन बैंड पीबी-4 37,400--67,000/- रुपए के साथ ग्रेड वेतन 8,700/- रुपए पर माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री (डा. एम. वीरप्पा मोईली) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री संजीव कुमार की नियुक्ति दिनांक 03.09.2013 तक है अर्थात् 7 वर्षों के संयुक्त कार्यकाल की शेष अवधि के लिए, अथवा मंत्री जी के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा जब तक कि वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद न कर दें अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो। केन्द्र में श्री संजीव कुमार की प्रतिनियुक्ति दिनांक 04.09.2005 से मानी गई है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. ए-32011/01/2012-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2011-सीएस. II (क) के अनुसार राष्ट्रपति वर्ष 2010 की चयन सूची से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित तदर्थ प्रधान निजी सचिवों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में पीबी-3 के रु. 15,600--39,100/-

एवं 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम संख्या	नाम	प्रभावी तारीख
1.	श्री राजेन्द्र कुमार	11.04.2011
2.	श्री सुरिन्दर सिंह	27.04.2011
3.	श्रीमती शैलजा पिल्लै	10.05.2011
4.	श्री जी. कुट्टपन	19.04.2011
5.	श्री ई. नटराजन	07.04.2011

2. उपरलिखित प्रधान निजी सचिवों को उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त वेतन एवं भत्तों के समान वेतन एवं भत्ते प्राप्त होना होते रहेंगे।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. 09/2012 (ए-19011/04/2012-ई.1)--राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग के दिनांक 10.02.2012 के कार्यालय आदेश संख्या 5/15/2011-राजभाषा (सेवा) के अनुसरण में श्री सुरेश धर दुबे को वाणिज्य विभाग में दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड 3(रु. 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन 5,400/-रु.) में सहायक निदेशक (रा.भा.) पद पर तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक के लिए, जो भी पहले हो, नियुक्त करती हैं।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. ए-38013/1/2012-संवर्ग--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी:--

क्र. सं.	सी.एस. नाम एवं पदनाम	जन्मतिथि	अधिवर्षिता की तारीख
1. --	श्रीमती सरिता रानी मित्तल, अनुभाग अधिकारी	30.04.1952	30.04.2012 (अपराह्न)

संजय शंकर, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2012

सं. 04/2012 (फा. सं. ए-19012/12005-स्था.)--वस्त्र मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सहायक निदेशक, श्री राजेन्द्र सिंह

अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर 30 अप्रैल, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

इन्द्रजीत सिंह, निदेशक

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. ए-12011/05/2011-स्थापना (एनपीपीए)--राष्ट्रपति जी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके पत्रांक एफ-3/42(1)/2012-एडीटी-1 दिनांक 10.04.2012 के माध्यम से उनके चयन के परिणामस्वरूप श्री के. के. जैन, उप निदेशक (तकनीकी) को पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100/-+ 7,600/- रुपए (ग्रेड पे) में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण में दिनांक 26.04.2012 की पूर्वाह्न से प्रोन्नति पर नियमित आधार पर निदेशक (प्रबोधन एवं पणाली) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शिव नारायण, निदेशक (प्रशासन)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2012

सं. ए-18011/145/2012-स्थापना--श्री चंद्र किशोर मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 1983) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर, 9 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

पी. पी. मुरलीधरन, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. पी-1188/2007-स्था.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर उपभोक्ता मामले विभाग में अवर सचिव, श्री केवल कृष्ण 30 अप्रैल, 2012 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 18 अप्रैल 2012

सं. एसएम/01/30/2010--राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (नैटमो), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रो. (डॉ.) विभाष चन्द्र झा को 09.04.2012 से तीन वर्षों की अवधि

अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए अल्पकालिक संविदा आधार पर 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-IV (37,400--67,000 रु.) में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीरज कुमार गयागी, निदेशक

#### पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अप्रैल 2012

सं. 17013/07/2007-आईएफएस-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966, के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, वर्ष 2006ए, 2007, 2008 और 2009 के लिए चयन सूची के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आवंटित करते हैं :--

#### 2006ए की चयन सूची

नाम	जन्म तिथि
श्री गुलजार हुसैन रंगरेज	15.01.1952

#### 2007 की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	जावेद अहमद इंद्राबी	20.02.1958
2.	जाहूर अहमद जान	17.11.1956
3.	अब्दुल रशीद काकर	11.01.1953

#### 2008 की चयन सूची

नाम	जन्म तिथि
श्री गुलाम अहमद मलिक	20.04.1954

#### 2009 की चयन सूची

क्र. सं.	अधिकारी के नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	पुष्कर नाथ पंडित	18.09.1955
2.	अली मोहम्मद डार	15.12.1958
3.	अब्दुल रशीद मीर	24.01.1957

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/06/2012-पी.II(.)--राष्ट्रपति, श्री रवि सिन्हा, (अभियंताओं की भारतीय रक्षा सेवा : 1984) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 8,700/- रुपये के ग्रेड पे सहित पे बैंड-4 37,400--67,000/- रुपये में निदेशक के पद पर 23 अप्रैल, 2012 की पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

मनोज कुमार राय, अवर सचिव

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

#### शुद्धि-पत्र

सं. ए-31013/2/2010-सी एच एस-V--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनस्वास्थ्य उप-संवर्ग में स्थायी/मूल नियुक्ति के संबंध में इस प्रभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2011 की समसंख्यक पूर्ववर्ती अधिसूचना के क्रम में, क्रम सं. 8 पर दर्शाए गए अधिकारी का नाम डॉ. सुनील विलासराव गिट्टी के स्थान पर डॉ. सुनील विलासराव गिट्टे पढ़ा जाए। अधिसूचना की अन्य बातें अपरिवर्तित रहेंगी।

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

दिनांक 18 नवम्बर 2011

#### शुद्धि-पत्र

सं. ए-31013/2/2006-सी एच एस-V--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जीडीएमओ उप-संवर्ग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में स्थायी/मूल नियुक्ति के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 2 मार्च, 2007 की समसंख्यक पूर्ववर्ती अधिसूचना के क्रम में, क्रम सं. 137 पर दर्शाए गए अधिकारी का नाम डॉ. (सुश्री) सुष्मिता सरकार (डे) के स्थान पर डॉ. (श्रीमती) सुष्मिता सरकार (डे) पढ़ा जाए। अधिसूचना की अन्य बातें अपरिवर्तित रहेंगी।

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 27 मार्च 2012

#### शुद्धि-पत्र

सं. ए-12025/13/2009-सीएचएस-I--स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा जारी दिनांक 15.11.2011 की अधिसूचना सं. ए-12025/13/2009-सीएचएस-I में, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी का नाम "डा. रश्मि दुरेजा" के स्थान पर "डा. रश्मि दुरेजा" पढ़ा जाए।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 20 अप्रैल 2012

सं. ए-12025/130/2010-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शैलेन्द्र कुमार को दिनांक 3 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान

(15,600--39,100 + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. शैलेन्द्र कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. शैलेन्द्र कुमार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 27 अप्रैल 2012

सं. ए-12025/74/2011-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. ममता लकवाल को दिनांक 06.01.2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 (15,600--39,100/- + (ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये) के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करती हैं। डॉ. ममता लकवाल को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/01/2010-स्थापना-I (पार्ट)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के आदेश सं. 9/20/2012-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में श्री केशव एन. देशीराजु, आईएएस (यू. के. : 78), अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उनके द्वारा धारित पद को अस्थाई रूप से अपग्रेड करके दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न से स्वस्थाने (इन-सीटू) आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2012

सं. जेड-11023/04/2012-आईटी--भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से कृषि एवं सहकारिता विभाग में कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र (तत्कालीन राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र) में 16.02.2012 के पूर्व-व्यापी प्रभाव से 10,000/- रु. के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-4 (37,400--67,000/- रु.) में निदेशक का एक पद सृजित किया गया है। यह पद अन्तरिक्ष विभाग के केडर में माना जायेगा।

इसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के उनके दिनांक 03.08.2011 के आईडी नं. एफ-101099/ई.सी.1(2)/2011 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तोमस वर्धीस, निदेशक

विषय :-- कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीसीएफ) महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र के रूप में पुनः नामित की स्थापना।

सं. जेड-11023/4/फैसल/2012-आईटी--राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीसीएफ) पुनःनामित महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र दिनांक 16.09.2011 के कृषि एवं सहकारिता विभाग के आदेश सं. जी-2012/3(i)/2010 ई ए के अनुसरण में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार के दिनांक 10.04.2012 के सम-संख्यक में सम्बद्ध कार्यालय के रूप में गठित किया गया। आयात/निर्यात आदि पर नीति बनाने तथा जल्द निर्णय लेने हेतु चयनित मुख्य फसलों के लिए उत्कृष्ट तकनीकों और प्रणालियों का उपयोग करते हुए मौसम के दौरान बहु-प्रयोजनीय फसल पूर्वानुमान तैयार करने तथा सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु मंत्रालय को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र का गठन किया जाता है। इस केन्द्र की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी करने के तुरन्त बाद पहले से विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रचालनात्मक घटकों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।

महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र के उद्देश्य/कार्य

महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र के उद्देश्य/कार्य निम्नलिखित होंगे :--

- (i) राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर 11 मुख्य फसलों अर्थात् चावल (खरीफ और रबी), ज्वार (खरीफ और रबी), मक्का, बाजरा, पटसन, रागी, कपास, गन्ना और मूंगफली (खरीफ और रबी), तोरिया और सरसों तथा गेहूँ का बहु-प्रयोजनीय पूर्वानुमान।
- (ii) फैसल के भाग के रूप में फसल पूर्वानुमानों के संबंध में इसरो द्वारा विकसित विद्यमान प्रणालियों को क्रियारूप देने तथा तत्काल आधार पर राष्ट्रीय कृषि सूखा मूल्यांकन और मानीटरन प्रणाली (एनएडीएएमएस) के आधार पर सूखा मूल्यांकन।
- (iii) केन्द्र को चालू करने से दो वर्षों की अवधि के भीतर फसल पूर्वानुमान में अतिरिक्त फसलों को शामिल करना तथा इसरो के सहयोग से पूरे देश में उप-जिला स्तर पर मध्यम से अधिक गति का सूखा मूल्यांकन।
- (iv) केन्द्र को चालू करने से 3 वर्षों की अवधि के भीतर उपग्रह और संबंधित प्रौद्योगिकियों में वर्तमान और भावी प्रवृत्तियों के आधार पर फसल पूर्वानुमानों का विकास एवं परिस्करण तथा सूखा मूल्यांकन।
- (v) फैसल और एनएडीएएमएस परियोजनाओं के भाग के रूप में सृजित/प्रयुक्त सभी आंकड़ों को शामिल करते हुए डाटाबेस अनुरक्षण, चयनित फसलों का परिचालनात्मक पूर्वानुमान करने तथा निर्णय निर्माताओं तथा अभिज्ञात प्रयोक्ताओं को नियमित रूप से इसे उपलब्ध कराने के लिए भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग (आईएमडी) राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण (एसएसएस), आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), आईसीएआर से परिणामों का पूर्वानुमान।
- (vi) अन्य परियोजना/कार्यक्रमों जैसे बाढ़, फसल मानीटरन आदि से

फसल पूर्वानुमान सूचना के परिणामों को शामिल करना तथा अपेक्षित सूचना का सृजन।

(vii) कृषि के अन्य क्षेत्रों जैसे फसल प्रणाली बागवानी, मृदा और इसकी स्थिति, वर्षासिंचित क्षेत्र मूल्यांकन और इसके प्रबंधन नियोजन में भू-मिति के उपयोग का समन्वय करने के लिए केन्द्र का विकास तथा 12वीं योजना के अंत तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति का अनुमान।

(viii) दीर्घावधि में वैश्विक स्तर पर सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए फसल पूर्वानुमानों के मूल्यांकन के लिए कार्य।

महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र का स्थान

महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र कृषि विस्तार सदन भवन, विस्तार निदेशालय, आईएआरआई परिसर, पूसा, नई दिल्ली में स्थित होगा।

महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र हेतु बजट परिव्यय

महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना और उसे चलाने के लिए निधियों (आवृत्ति और अनावृत्ति) की वार्षिक आवश्यकता केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम "अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भू-आधारित प्रेक्षकों का उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान (फैसल)" के अनुमोदित संशोधित परिव्यय से पूरी की जाएगी।

तोमस वर्धीस, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2012

सं. 38011/08/2011-स्था.-2--अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने के परिणामस्वरूप श्रीमती सीमा सेठी, सहायक निदेशक (सहकारिता), कृषि एवं सहकारिता विभाग से दिनांक 30.04.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होती हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. 19011/9/2012-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की उनके पत्र सं. एफ 3/35 (24)/2010-एडीटी-2 दिनांक 09.01.2012 के अधीन दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए डॉ. अखिलेश कमल, निदेशक (सूचना एवं संचार) को 20 अप्रैल, 2012 के अपराह्न से पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग में वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान तथा ग्रेड वेतन 7,600/- + एनपीए (यथा स्वीकार्य) में नियुक्त करती हैं।

2. उन्हें एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे संयुक्त सचिव (पशुधन स्वास्थ्य) को रिपोर्ट करें।

डी. बेनर्जी, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2012

सं. 19011/11/2009-स्थापना-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 9/20/2012-ई.ओ. (एस.एम.-1), दिनांक 17.04.2012 के अनुसरण में तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री राजीव महर्षि, अपर सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर. जे. : 78) को 17.04.2012 से स्वस्थाने आधार पर विशेष सचिव नियुक्ति किया जाता है।

विजय सिंह, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2012

सं. ए. 32013/1/2011-ई.-III--सुश्री कृष्णा कुमारी, सीएसएसएस की नियमित प्रधान निजी सचिव का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.02.2012 के आदेश सं. 2/4/2011-सीएस-II (ए) के द्वारा वरिष्ठता कोटे में वर्ष 2011 के लिए वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति दिनांक 09.04.2012 (पूर्वाह्न) से उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की कांडर इकाई में नियमित आधार पर पीबी-3 (15,600--39,100 + ग्रेड वेतन 7,600/- रु.) में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2011

सं. 19011/2/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.02.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/31/2011-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में और पंचायती राज मंत्रालय से पारिषदिक स्थानांतरण पर डॉ. ए. के. दुबे, आई. ए. एस. (केरल : 82) को उनकी पांच वर्षों की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष कालावधि हेतु यानि 29.09.2016 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय में 30.03.2012 के अपराह्न से 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. (पीबी-4) के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुब्रतो दास, उप सचिव (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 2012

सं. 12034/5/2011-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.04.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/1/2012-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री पाओलिनलाल हाओकिप, उप सचिव, लोक सभा

सचिवालय को दिनांक 04.01.2012 से 21.09.2015 तक मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर या मंत्री के ओएसडी के रूप में कार्य करने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7,600/- रुपए) में उप सचिव के स्तर पर माननीय जनजातीय कार्य मंत्री (श्री बी. किशोर चन्द्र देव) के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. रामाकृष्णन, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 मार्च 2012

सं. ए. 12028/53/2011-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अभिलेखागार में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के नियमित सहायक निदेशक श्री अमित प्रकाश को दिनांक 16.02.2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर अथवा नियमित पदधारी द्वारा पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक या इस संबंध में आगे कोई आदेश होने तक 15,600--39,100 + 6,600/- रु. वेतन ग्रेड के वेतन बैंड (पीबी-3) में समूह "क" राजपत्रित पद पर दूरसंचार विभाग में उप निदेशक (राजभाषा) नियुक्त करते हैं।

2. यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अधिकारी की ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति होने पर उन्हें ग्रेड में वरिष्ठता और/अथवा नियमित पदोन्नति का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उपर्युक्त के संबंध में जब तक कोई अन्यथा आदेश नहीं होता वे तदर्थ नियुक्ति की अवधि पूरी करने पर अपने मूल ग्रेड में प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

निर्मला देव, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 2012

सं. पीएफ/226/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--श्री एल.एन. राजू, निदेशक, कर्मचारी कोड सं. 226, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में 30 अप्रैल, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर.एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

सं. पीएफ/550/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--श्री राजेन्द्र सिंह, उप निदेशक, कर्मचारी कोड सं. 550, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में 30 अप्रैल, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर.एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. 15/12 (फाइल संख्या 2/10/2011-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र चौधरी, आई.ए.एस. (यूपी : 1981) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को अगले आदेशों के होने तक 20 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न से 67,000/- रुपए (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) 79,000/- के एचएजी वेतनमान में विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. 27-डीजी/पी(1)/2010-ईसी.-II/ई डब्ल्यू-1--श्री चन्द्र शेखर प्रसाद, महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.), नई दिल्ली अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप दिनांक 30.04.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

जे. एस. रावत, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 27th January 2012

No. A.22017/1/2009-PME.—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Pachauri as Communication Adviser, on the personal staff of the Prime Minister in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India, with effect from the forenoon of 18th January, 2012.

2. The appointment of Shri Pankaj Pachauri on the personal staff of Prime Minister is on co-terminus basis or until further orders, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A.22017/1/2009-PME (Vol-II)—Consequent upon acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Harish Khare has relinquished charge of the post of Media Adviser to PM (on the personal staff of the Prime Minister) with effect from the forenoon of 21.01.2012.

R. MYTHILI, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 13th April 2012

No. RS/6/5/2012/32-Perl.—The services of Shri Paritosh Bhattacharya, who had been appointed as Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of former Deputy Leader of B.J.P., in Rajya Sabha (Shri S. S. Ahluwalia), stand terminated w.e.f. the afternoon of 2nd April, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 20th April 2012

No. RS.6/1/2012/35-Perl.—The services of Shri Gurdeep Singh Sappal, who had been appointed as Officer on Special Duty in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha, stand terminated w.e.f. the afternoon of 10th April, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/6/4/2012/36-Perl.—Consequent to the re-appointment of Dr. Abhishek Manu Singhvi as Chairman of the Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice, the appointment of Smt. Shikha Mukherjee as Senior Private Secretary on co-terminus basis in his personal staff has been renewed w.e.f. 9th April, 2012.

2. The appointment of Smt. Shikha Mukherjee is at the discretion of the present Chairman, Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 26th April 2012

No. RS.3/2/1/2012/37-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Piyush Soperna, Research Assistant in the Rajya Sabha Secretariat as Research Officer on regular basis in the Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 26th April, 2012 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

## NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 25th April 2012

No. A-35013/1/2011-Ad.Vol.II.—The President is pleased to appoint Dr. Bhashyam Kasturi as Joint Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- in the National Security Council Secretariat on contract basis with effect from the forenoon 13th April, 2012 for a period of three years (including one year probation), or until further orders, whichever is earlier.

M. S. S. NAIR, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 9th April 2012

No. A-22016/1/2012-I.—The President is pleased to appoint Shri Sudarsanam Srinivasan, IAS (OR:80) as Additional Secretary and Financial Adviser in the Department of Space, Bangalore with effect from the forenoon of 9th April, 2012 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 26th April 2012

No. A-20012/84/83-Adm.III.—On attaining the age of superannuation, Shri Chokhe Lal Kadam, Principal Private Secretary (ad hoc) of CSSS cadre of Planning Commission retires from Government Service w.e.f. the afternoon of 30.04.2012.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-32014/1/2010-Adm.III.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS-II(A), dated the 20th March, 2012, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries of CSSS cadre of Planning Commission to the Principal Private Secretary of CSSS for the Select List Year 2010 in the scale of (Rs. 15,600—

39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on regular basis w.e.f. 20.03.2012 (FN):—

Sl. No.	Name	Category	Date of Birth	Select List Year in the PS Grade
	S/Shri/Smt.			
1.	D. K. Rajvanshi	Gen.	22.11.1953	1991
2.	M. K. Talwar	Gen.	10.06.1964	1991
3.	R.K. Arora	Gen.	10.03.1960	1991
4.	Raminder Kaur	Gen.	31.10.1952	1992
5.	V. Arumughan	Gen.	01.09.1953	1993
6.	A. S. Rawat	Gen.	20.05.1956	1993
7.	Vimla Guwalani	Gen.	31.01.1959	1993
8.	Shaira A. Khan	Gen.	15.07.1956	1993
9.	Asha Lata Gupta	Gen.	29.04.1957	1994
10.	Sudha Sharma	Gen.	07.08.1958	1994
11.	Madhuri N. Shende	Gen.	15.07.1958	1994
12.	C. L. Kadam	Gen.	03.04.1952	1995
13.	Sharda Kapoor	Gen.	17.02.1959	1995
14.	C. K. Sasi	Gen.	31.03.1960	1996
15.	N. K. Vashist	Gen.	10.05.1958	1996
16.	Lucy Bara	S.T.	02.04.1968	2001
17.	Ms. Shanta Devi	S.C.	13.01.1964	2003
18.	Promila	Gen.	01.01.1957	1997
19.	D. L. Chawla	Gen.	18.11.1953	1997
20.	Latha Ashokan	Gen.	03.12.1966	1998

2. The Order of seniority of these officers in the grade of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service will follow the serial order as given in the Annexure to Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/3/2011-CS-II(A), dated the 20th March, 2012, irrespective of their actual dates of appointment to the Principal Private Secretary Grade.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-1, the 17th April 2012

No. A-19018/01/2010-Ad. I—The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Shri Pankaj Jain, IAS (JK : 1978) as Special Secretary in the Ministry of Statistics & Programme Implementation with effect from 17.04.2012 on in-situ basis by temporarily upgrading the post of Additional Secretary held by him.

K. R. SHARMA, Under Secy.

#### SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 19th April 2012

No. A-19/G-A/98—Shri Yashvir Singh, (IES : 95), whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India vide Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, reference No. 2/2/2005-EO(MM.I), dated 09.09.2009 and Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Office Order No. 202 dated 10.09.2009, is hereby relieved from the post of Director in the Secretariat of the Election Commission of India, on completion of his tenure, with effect from 19.04.2012 (AN) to take up his new assignment as Director, Ministry of Tourism.

B. C. PATRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 29th March 2012

No. A-32014/1/2005-Admn. I (L.D)—The Competent Authority is pleased to appoint Dr. Bahadur Singh, Assistant (Legal) to officiate as Superintendent (Legal) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 27.03.2012 or until further orders.

2. This ad hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Superintendent (Legal) nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

MR. BEERH, Dir. (Admn.)

#### DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th April 2012

No. A-12025/02/2010-Admn. I (LA)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the Competent Authority in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs is pleased to appoint Shri Santosh Ramanna, K., to officiate as Superintendent (Legal), a Group 'B' Gazetted Post, in the Branch Secretariat, Mumbai of the said Department, in the Pay Scale of PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. the forenoon of 26th March, 2012.

M. K. SHARMA, Additional Secy.

#### DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 2nd March 2012

No. K-11019/3/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Pinaki Chandra



Ghose, seniormost Judge of the Calcutta High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of the Calcutta High Court with effect from 05.03.2012 to 16.03.2012 (both days inclusive) during the absence of Justice Shri Jainarayan Patel, Chief Justice, on leave.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

The 10th April 2012

No. K-11017/01/2012-US-II—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Abhay Manohar Sapre, Judge of the Rajasthan High Court, as a Judge of the Chhattisgarh High Court and to direct him to assume charge of his office in the Chhattisgarh High Court on or before 25th April, 2012.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

No. K-11017/02/2012-US-II—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Kanwaljit Singh Ahluwalia, Judge of the Punjab and Haryana High Court, as a Judge of the Calcutta High Court and to direct him to assume charge of his office in the Calcutta High Court on or before 25th April, 2012.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

The 13th April 2012

No. K-13012/03 /2011-US.II—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (1) Vishnu Chandra Gupta for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office, (2) Mohammad Tahir for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office, (3) Mushaffey Ahmad with effect from the date he assumes charge of his office till 31st December 2013, (4) Arvind Kumar Tripathi for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office, (5) Saeed-uz-Zaman-Siddiqui with effect from the date he assumes charge of his office till 30th November 2013, (6) Aditya Nath Mittal for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office, (7) Mahendra Dayal for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office, (8) Virendra Vikram Singh for a period two years with effect from the date he assumes charge of his office, (9) Het Singh Yadav for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office, (10) Anil Kumar Sharma for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office, and (11) Anurag Kumar with effect from the date he assumes charge of his office till 18th December

2013, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

The 18th April 2012

No. K. 11019/3/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Mahesh Mittal Kumar, seniormost Judge of the Punjab & Haryana High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Justice Shri Rajan Gogoi relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Punjab & Haryana High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

No. K. 13011/02/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by Clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Ranjan Gogoi, Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th April 2012

No. PF/G/245-Ad.V—The President is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Singh as Director in the Ministry of Home Affairs in Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 19th March, 2012, until further orders.

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

New Delhi-110001, the 24th April 2012

No. I-12015/2/2009-IPS.IV—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule-5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government allocates following cadres to the candidates allocated to the Indian Police Service on the basis of the results of the Civil Services Examination, 2010 :—

Sl. No.	Rank No.	Name of the Candidates	Home State	Cadre Allotted
1	2	3	4	5
		S/Shri/Smt.		
1.	3	R.V. Varun Kumar	TN	TN
2.	84	Nanak Singh	PB	PB
3.	86	Bhuvan Bhushan Yadav	RJ	RJ

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4.	87	Ms. Devangi Swarnkar	MH	RJ	40.	173	Ingiti Pratap Singh	UP	AGMUT
5.	90	D. Krishna Bhaskar	KL	A.P.	41.	175	Amogh Jeevan Gaonkar	KTK	MH
6.	93	Ghanshyam Bansal	Delhi	AGMUT	42.	176	Ms. Ruchika Katyal	HR	AGMUT
7.	95	Abhishek Kumar Singh	BH	GJ	43.	177	Venkata Appalanaidu Chintam	AP	AP
8.	99	Depak Gauri	Delhi	AGMUT	44.	180	Syed Abid Rasheed Shah		J&K J&K
9.	104	Pinak Mishra	OR	OR	45.	182	Sameer Sharma	J&K	AGMUT
10.	105	Bhusarapu Satya Yesubabu	AP	AP	46.	183	Saurabh Mishra	MP	MP
11.	106	Rahul Pandey	UP	UP	47.	184	Lodha Rahul Kumar Indarchand	MH	MP
12.	108	Ajay Kumar	UP	UP	48.	187	Zafar Ajmal Kidwai	UP	WB
13.	109	Himanshu Gupta	Delhi	HP	49.	188	Narayanan T.	KL	KL
14.	110	Karthik Reddy	KTK	KTK	50.	191	Ms. Isha Pant	MP	MP
15.	112	Gaurav Garg	Delhi	PB	51.	192	Kuldeep Kumar R Jain	TN	KTK
16.	113	Har Kishore Raj	UP	BH	52.	194	Joyanta Chakarborty	WB	OR
17.	116	Joysar Hiteshkumar Hansraj	GJ	GJ	53.	201	Swapnil Mangain	UK	UP
18.	130	Deshmukh Pankaj Ashokarao	MH	MH	54.	203	Ms. Vindita Pandey	UP	TN
19.	131	Mangesh Kumar	UTK	UTK	55.	205	Gaurav Lal	UP	WB
20.	136	Sandeep Singh	UP	UP	56.	209	Santosh Hadimani	KTK	TN
21.	137	Ms. Usha Rangnani	UP	AGMUT	57.	210	Indra Kalyan Elesela	AP	CHG
22.	139	Abhishek Mohanty	OR	AP	58.	211	Yathish Chandra G.H.	KTK	KL
23.	141	Akkanouru Prasad Praladh		MH MH	59.	212	Mohneesh Mishra	UP	AM
24.	144	Anand Sharma	RJ	RJ	60.	214	Prateesh Kumar	UP	KL
25.	147	Priyadarshi Alok	BH	JH	61.	217	Ms. Preeth Ganapathy	KTK	UP
26.	148	Sidharth Sihag	HR	PB	62.	220	Ms. Shivani Tewari	RJ	WB
27.	150	Vivek Sheel Soni	PB	PB	63.	221	Ambarkar Shriram Dinkar		MH J&K
28.	151	Ms. Urvija Goel	UP	AGMUT	64.	222	Shrihari Pandey	BH	WB
29.	153	Tarun Kumar Duggal	GJ	GJ	65.	223	Abhishek Modi	UP	WB
30.	155	Chandan Kumar Jha	BH	JH	66.	225	Anand Mishra	WB	AM
31.	158	Ms. Nisha Shekhar	Delhi	TN	67.	227	Bhola Nath Pandey	UP	WB
32.	160	Ajay Pal	PB	UP	68.	234	Satya Prakash	BH	BH
33.	164	Patil Vinayak Vasant Rao	MH	KTK	69.	236	Abhishek Gupta	UP	WB
34.	166	Aditya Pratap Singh	RJ	MP	70.	237	Ms. Patil Mokshada Anil		MH MH
35.	168	Rajat Bansal	UP	WB	71.	238	Pranav Tayal	Delhi	AGMUT
36.	169	Mohammad Imran	BH	UP	72.	239	P. Raja	TN	KTK
37.	170	Sunpreet Singh	PB	AP	73.	240	Ankur Jain	MP	AM
38.	171	Arjit Sinha	WB	WB	74.	242	Pankaj Kumar Dwivedi	UP	WB
39.	172	Shailesh Kumar Pandey	BH	UP	75.	243	Ms. Sankaran Subashini Jagadeesan	MH	AM

1	2	3	4	5
76.	244	Annamalai K.	TN	CTK
77.	251	Ms. Manisha Choudhary		RJ HR
78.	260	Anburajan K.K.N.	TN	AP
79.	274	Babujee Attada	AP	AP
80.	286	B. Gangadhar	AP	TN
81.	288	Parvinder Singh	UP	UP
82.	289	Mandlik Chaitanya Ravindra		MH GJ
83.	304	Murali Rambha	AP	TN
84.	307	P.S.C. Kalyan	AP	TN
85.	314	Karthick K.	TN	KL
86.	315	Shankar Choudhary	JH	AGMUT
87.	317	Dev Ranjan Verma	UP	UP
88.	322	Fating Rahul Haridas	MH	MP
89.	328	Gaurav Yadav	UP	RJ
90.	329	Sreedhar G.	TN	MH
91.	331	Ashish Bharti	BH	BH
92.	340	Ms. Partiksha Godara	RJ	AGMUT
93.	343	Manoj Kumar	HR	HR
94.	347	S. Chaitanya	AP	MH
95.	359	Hari Sankar	KL	KL
96.	361	Kaushal Kumar	BH	MH
97.	363	Riyaz Iqbal	KL	MP
98.	364	Asit Yadav	UP	MP
99.	369	Santosh Kumar Singh	UP	CHG
100.	371	Rakesh Kumar	UP	BH
101.	374	Deepak Yadav	HR	AGMUT
102.	385	Sanjay Kumar Sain	RJ	AGMUT
103.	389	Kumar Gautam	BH	WB
104.	396	Arun Thamburaj A.	TN	AGMUT
105.	399	Battula Gangadhar	AP	OR
106.	400	Ajeet Singh Yadav	UP	WB
107.	401	Karthikeyan K.	TN	AM
108.	403	Surya Pratap Yadav	UP	WB
109.	405	Ilyas K.P.A.	KL	NG
110.	409	Ms. Anjum Ara	UP	MT
111.	411	Santosh Babu K.	CTK	CTK
112.	416	Pravin Mundhe	MH	MT
113.	472	Abhishek Singh	UP	UP

1	2	3	4	5
114.	488	Deepak Hilori	UP	PB
115.	491	Manjunath Huchappa Singe		CTK MH
116.	524	Ms. Saraoj Kumari	RJ	GJ
117.	532	Rakesh Chandra Kalasagar M.		AP MH
118.	548	Abhishek Jorwal	RJ	HR
119.	559	Vinod Kumar	J&K	J&K
120.	569	Pranaya Ashok	UP	MH
121.	577	Maharabam Pradip Singh		Manipur
122.	579	Ms. Bhagat Priyanka Nawanath		MH MH
123.	600	Ms. Shalini	Delhi	UP
124.	603	Ms. Guguloth Amrutha	AP	AGMUT
125.	636	Sasimohan V.	TN	TN
126.	656	Ms. Jaya Roy	WB	JH
127.	661	Madan Mohan Meena	RJ	PB
128.	670	Rajesh S.	TN	UP
129.	671	Rajendar Kumar Meena	RJ	HR
130.	678	Hemant Kutiyal	UTK	UP
131.	679	D. Pradeep Kumar	AP	UP
132.	681	Raman Kumar Meena	RJ	HP
133.	689	Ms. Meshram Swapna Gautam	MH	HP
134.	698	Manoj C.	TN	UP
135.	703	Aditya Kumar	UP	BH
136.	707	Ananthnag V.S.R.	AP	WB
137.	708	Ms. Sonkavde Sonal Laxmidas	MH	MT
138.	718	Ms. Simala Prasad	MP	MP
139.	720	Rajendra Kumar Bheel	RJ	BH
140.	721	Fakkeerappa Kagineelli	CTK	AP
141.	732	Banoth Jugal Kishore Kumar		AP OR
142.	735	Siva Prasad Yellasiri	AP	SK
143.	744	Shankar Brata Raimedhi	Assam	AM
144.	749	Koteswara Rao Nalavath		AP WB

PRASHANT NIKAM, Director (Police)

New Delhi, the 1st May 2012

No. I-14011/26/2009-IPS.I(I)—In exercise of the Provisions contained in Sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 18.04.2012, approved the Select List of the year 2010, prepared by the

Selection Committee in its meeting held on 18.12.2011, containing the names of the following State Police Service Officers of Gujarat, towards filling up 17 substantive vacancies in the IPS of Gujarat Cadre:—

## Select List 2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
	Smt./Shri	
1.	R. S. Bhagora	01.06.1959
2.	R. J. Pargi	01.06.1959
3.	P. L. Mal	13.02.1968
4.	M. L. Ninama	01.06.1966
5.	P. C. Baranda	01.06.1959
6.	M. S. Bhabhor	01.06.1962
7.	G. V. Barot	15.04.1959
8.	R. F. Sangada	15.03.1960
9.	B. R. Pandor	12.09.1962
10.	N. N. Chaudhari	18.02.1968
11.	A. G. Chauhan	11.04.1967
12.	M. K. Nayak	24.10.1961
13.	R. V. Asari	23.05.1971
14.	V. V. Chaudhary	01.06.1956
15.	K. N. Damor	29.11.1967
*16.	J. B. Mandaviya	14.10.1956
**17.	N. K. Amin	21.08.1958

\*The name at Sl. No. 16 is included in the select list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

\*\*The name at Sl. No. 17 is included in the select list provisionally subject to clearance in the disciplinary and criminals proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

2. The aforesaid Select List is subject to the outcome of SCA No. 16834/2007 filed by Shri G. V. Barot Vs State of Gujarat, pending before Hon'ble High Court of Gujarat.

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. I-14011/26/2011-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Gujarat Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them

to the Gujarat Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

## Select List 2010

S. No.	Name	Date of Birth
	Smt./Shri	
1.	R. S. Bhagora	01.06.1959
2.	R. J. Pargi	01.06.1959
3.	P. L. Mal	13.02.1968
4.	M. L. Ninama	01.06.1966
5.	P. C. Baranda	01.06.1959
6.	M. S. Bhabhor	01.06.1962
7.	G. V. Barot	15.04.1959
8.	R. F. Sangada	15.03.1960
9.	B. R. Pandor	12.09.1962
10.	N. N. Chaudhari	18.02.1968
11.	A. G. Chauhan	11.04.1967
12.	M. K. Nayak	24.10.1961
13.	R. V. Asari	23.05.1971
14.	V. V. Chaudhary	01.06.1956
15.	K. N. Damor	29.11.1967

2. The aforesaid appointments are subject to the outcome of SCA No. 16834/2007 filed by Shri G. V. Barot Vs. State of Gujarat, pending before Hon'ble High Court of Gujarat.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

BALDEV RAJ, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN  
REGION

New Delhi-110001, the 24th April 2012

No. 12/27/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Tshering Yangzom Das, IAS (AM : 82) as Joint Secretary in Ministry of Development of North Eastern Region in Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years with effect from 23.04.2012 (AN) or till further orders, whichever event occurs earlier.

ASHOLI CHALAI, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th March 2012

No. 14012/18/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service

(Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Gujarat Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

S. No.	Name	Batch	Date of confirmation
	S/Sh.		
1.	Ardra Agarwal (Ms)	2007	18.08.2009
2.	Rana Dilip Kumar Bhuraram	2007	18.08.2009
3.	Ravi Shanakar	2007	18.08.2009
4.	Remya Mohan Moothadath	2007	18.08.2009
5.	Sagale Sandip Janardanpant	2007	18.08.2009

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 20th April 2012

No. 14015/24/2011-AIS (I)—In partial modification in the Notification No. 14015/24/2011-AIS (I)-A and No. 14015/24/2011-AIS (I)-B dated 13th January, 2012 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), para 2 is added as under.

2. The recommendations of the above mentioned Selection Committee Meeting are subject to final outcome of OA No. 1257/2011 (Pronab Kumar Paul Vs. State of West Bengal & Ors.).

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 11th April 2012

No. A-20016/05/75-AR (Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2010 for Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 3/3/2011-CS.II dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint Shri V. K. Nathani, Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographer Service on regular basis with effect from 30.03.2011.

B. K. SINGH, Under Secy.

The 23rd April 2012

No. A-19011/2/2011-AR (Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Shashi Shekhar, IAS (TN : 81) as Additional Secretary, Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from the afternoon of 20th April, 2012.

B. K. SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE

##### (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 2nd April 2012

No. 31 : (F. No. A-38012/1/2012-Ad.I)—Shri S. K. Deb, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Deputy Secretary in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.3.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 32 : (F. No. A-38012/3/2012-Ad.I)—Shri Labh Singh Chane, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Director in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.3.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 33 : (F. No. A-38014/1/2012-Ad.I)—Shri M. S. Kainth, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31.03.2012(AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 34 : (F. No. A-38013/1/2012-Ad.I)—Shri Suresh Chander Sharma, an officer of the Indian Customs and Central Excise Service, posted as Technical Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31.03.2012(AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

#### CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 9th March 2012

No. 02/2012 (F. No. A-32011/02/2001-Ad.VI)—In compliance of Hon'ble C.A.T., Jodhpur Bench, Jodhpur Order dated 03.05.2011 in O.A. No. 30/2011, Shri Ramawatar Verma (85072), presently Deputy Commissioner of Income Tax, is hereby placed in the Selection Grade (Non-Functional) in the Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/- (Pre-Revised) w.e.f. 24.10.2000 till 21.04.2009.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 25th April, 2012

No. A-12026/5/2010-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri K.S.R.V.S. Chalam, IES(81), as Economic

Adviser in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 10,000/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 19th April, 2012 and until further orders.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 20th April 2012

No. A-12011/2/2012-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar IRS (C&CE : 1993) as Private Secretary to the Hon'ble Minister of Corporate Affairs (Dr. M. Veerappa Moily) in the Pay Band of PB-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. the forenoon of 18th April, 2012.

2. The appointment of Shri Sanjeev Kumar is upto 03.09.2013 i.e. for the balance period of the combined tenure of 7 years, or on co-terminus basis with the Minister or till the ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest. The deputation of Shri Sanjeev Kumar at the Centre counts w.e.f. 04.09.2005.

J. S. GUPTA, Under Secy.

The 23rd April 2012

No. A-32011/01/2012-Adm. I—In terms of Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20.03.2012, the President is pleased to appoint the following ad-hoc Principal Private Secretaries of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) on regular basis against the Select List Year 2010 in the Ministry of Corporate Affairs in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus 6,600/- Grade Pay, with effect from the dates mentioned against their name :—

Sl. No.	Name	with effect from
1.	Shri Rajender Kumar	11.04.2011
2.	Shri Surinder Singh	27.04.2011
3.	Smt. Shailaja Pillai	10.05.2011
4.	Shri G. Kuttappan	19.04.2011
5.	Shri E. Natarajan	07.04.2011

2. The above mentioned PPS will continue to draw the same pay and allowances that are being drawn by them at present.

J. S. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

##### (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 23rd April 2012

No. 9/2012 (A-19011/4/2012-E.I)—In pursuance of Department of Official Language's Office Order No. 5/15/2011-OL (Service) dated the 10.02.2012, the President is pleased to appoint Shri Suresh Dhar Dubey as Assistant Director (OL) on ad hoc basis, in the Department of Commerce in PB : 3 (Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- G.P.) w.e.f. 20th April, 2012 (FN) for a period of one year or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

S. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 23rd April 2012

No. A-38013/1/2012-Cadre—On attaining the age of superannuation, the following Section Officer of CSS Cadre of Supply Division shall retire from Government Service with effect from the date mentioned against her name :—

CSL No.	Name & Designation	Date of Birth	Date of Superannuation
-	Smt. Sarita Rani Mittal, Section Officer	30.04.1952	30.04.2012 (A/N)

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 30th April 2012

No. 04/2012 (F.No. A-19012/1/2005-Estt.)—Shri Rajendra Singh, Assistant Director, Central Secretariat Official Language Service, Ministry of Textiles retired from Government Service, on his attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April, 2012.

INDERJIT SINGH, Director

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL)

#### NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY

New Delhi, the 26th April 2011

No. A-12011/5/2011-Estt. (NPPA)—The President is pleased to appoint Shri K. K. Jain, Deputy Director (Technical) on promotion as Director (M&S) in the National Pharmaceutical Pricing Authority in the Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) on regular basis w.e.f. 26.04.2012 (FN) consequent upon his selection to the said post by UPSC vide their communication No. F-3/42(1)/2012-ADT-1 dated 10.04.2012.

SHIV NARAIN, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES

New Delhi, the 16th April 2012

No. A-18011/145/2012-Estt.—Shri Chandra Kishore Mishra, IAS (BH : 1983) assumed charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for a period of five years with effect from the forenoon of 9th April, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMSUMER AFFAIRS, FOOD &  
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 26th April 2012

No. P-1188/2007-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Kewal Krishan, Under Secretary in Department of Consumer Affairs will retire from Government Service in the afternoon of 30th April, 2012.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 18th April 2012

No. SM/01/30/2010—The President is pleased to appoint Prof. (Dr.) Vibhash Chandra Jha, as Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation (NATMO), Department of Science and Technology in the Pay Band-IV (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- on Short Term Contract basis for a period of three years with effect from 09.04.2012 or until further orders, whichever is earlier.

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Director

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 19th April 2012

No. 17013/07/2007-IFS-II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the years 2006-A, 2007, 2008 & 2009 and allocate them to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Select List of 2006A

Sl. No.	Name	Date of Birth
	Gulzar Hussain Rangrez	15.01.1952

Select List of 2007

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Javed Ahmad Indrabi	20.02.1958
2.	Zahoor Ahmad Jan	17.11.1956
3.	Abdul Rashid Kakroo	11.01.1953

Select List of 2008

Ghulam Ahmad Malik	20.04.1954
--------------------	------------

Select List of 2009

1.	Pushkar Nath Pandita	18.09.1955
2.	Ali Mohammad Dar	15.12.1958
3.	Abdul Rashid Mir	24.01.1957

VIVEK SAXENA, Director

New Delhi-110003, the 24th April 2012

No. A-19011/06/2012-P-II(.)—The President is pleased to appoint Shri Ravi Sinha, (Indian Defence Service of Engineers : 1984) as Director in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 23rd April, 2012 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MANOJ KUMAR RAI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th October, 2011

CORRIGENDUM

No. A-31013/1/2010-CHS-V—In continuation of this Division's earlier Notification of even number dated 2nd August, 2011 regarding confirmation/substantive appointment in the Public Health sub-cadre of the Central Health Service, the name of officer indicated at Sl. No. 8, may be read as Dr. Sunil Vilasrao Gitte instead of Dr. Sunil Vilasrao Gittee. Other contents of the Notification will remain the same.

AMARJIT SINGH, Under Secy.

The 18th November 2011

CORRIGENDUM

No. A-31013/2/2006-CHS-V—In continuation of this Ministry's earlier Notification of even number dated 2nd March, 2007 regarding confirmation/substantive appointment in the Chief Medical Officer grade of GDMO

sub-cadre of the Central Health Service, the name of officer indicated at Sl. No. 137, may be read as Dr. (Mrs.) Susmita Sarkar (De) instead of Dr. (Ms.) Sushmita Sarkar (De). Other contents of the Notification will remain the same.

AMARJIT SINGH, Under Secy.

New Delhi-110108, the 20th April 2012

No. A-12025/130/2010-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shailendra Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 03.01.2011 until further orders. Dr. Shailendra Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Shailendra Kumar shall be on probation for two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 27th April 2012

#### CORRIGENDUM

No. A-12025/13/2009-CHS-I—In the Notification No. A-12025/13/2009-CHS-I dated 15.11.2011 issued by the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), the name of Medical Officer of the Central Health Service may be read as "Dr. Rashim Dureja" in place of "Dr. Rashmi Dureja".

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/74/2011-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Mamta Luckwal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of Rs. PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 06.01.2012 until further orders. Dr. Mamta Luckwal is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th April 2012

No. A-19011/01/2010-Estt.-I(pt)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 9/20/2012-EO(SM-I) dt. 17th April, 2012, the President is pleased to appoint Sh. Keshav N. Desiraju, IAS (UK : 78), Additional Secretary, Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare as Special Secretary, Department of

Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare on in-situ basis with effect from the forenoon of 17th April, 2012 by temporarily upgrading the post held by him.

ANIL KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 27th April 2012

No. Z-11023/4/FASAL/2012-IT—Sanction of the President is hereby accorded for creation of one post of Director, in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- with retrospective effect from 16.02.2012 in Mahalanobis National Crop Forecast Centre (erstwhile National Centre for Crop Forecasting) - an Attached Officer under Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya) in Department of Agriculture and Cooperation (Krishi Aur Sahkarita Vibhag). The post shall stand encadred in the Department of Space.

This issue with the approval of Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their ID No. F-101099/E.C.I(2)/2011 dated 03.08.2011.

THOMAS VARGHESE, Director

Subject : Setting up of National Centre for Crop Forecasting (NCCF) renamed as Mahalanobis National Crop Forecast Centre in the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

No. Z-11023/4/FASAL/2012-IT—National Centre for Crop Forecasting (NCCF) since rename as Mahalanobis National Crop Forecast Centre vide GOI's Order of even number dated 10.04.2012 is hereby constituted as an Attached Office under Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya) in Department of Agriculture and Cooperation (Krishi Aur Sahkarita Vibhag) in accordance with DAC's Order No. G-20012/3(i)/2010-EA dated 16.09.2011. The Centre have been constituted with a view to prepare and make available to the Ministry multiple in-season crop forecasts and assessment of drought situation using state of the art techniques and methodologies for selected major crops for devising policy formulation and quick decision making on import/exports etc. Operational components of already developed technologies shall stand transferred by Indian Space Research Organization (ISRO) immediately after the issue of Notification in respect of setting up of Centre.

Objectives/Functions of Mahalanobis National Crop Forecast Centre

The objectives of the Centre will be as under :—

- (i) Multiple forecasts of 11 major crops namely Rice (Kharif & Rabi), Jowar (Kharif & Rabi), Maize, Bajra, Jute, Ragi, Cotton, Sugarcane and Groundnut (Kharif & Rabi), Rapeseed & Mustard and Wheat at National/State/District Level.
- (ii) Operationalization of existing methodologies developed by ISRO regarding crop forecasts as



part of FASAL and drought assessment based on National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System (NADAMS) Project on immediate basis.

- (iii) Inclusion of additional crops in crop forecast and sub-district level moderate to high resolution drought assessment in the entire country in collaboration with ISRO within a period of 2 years from commissioning of the Centre.
- (iv) Development & refinement of crop forecasts and drought assessment based on current and future trends in satellite and related technologies within a period of 3 years from commissioning of the Centre.
- (v) Maintenance and statistical analysis of database comprising all data generated/used as part of the FASAL and NADAMS projects, forecast of results from India Meteorological Department (IMD), State Agricultural Statistics Authorities (SASAs), Institute of Economic Growth (IEG), ICAR etc. for making operational forecasts of selected crops and making the same available regularly to decision makers and identified users.
- (vi) Assimilation of results of crop forecasts information from other projects/programmes such as flood, drought monitoring etc. and generation of the required information.
- (vii) Evolution of the Centre to coordinate use of geomatics in other fields of agriculture such as cropping system, horticulture, soil and its health, rain fed area assessment & its management planning, estimation of damage due to natural calamities etc. by the end of XIIth Plan period.
- (viii) In the long run, work towards assessing the crop prospects using remote sensing and geographic information system on a global level.

#### Location of Mahalanobis National Crop Forecast Centre

The Mahalanobis National Crop Forecast Centre will be located adjacent to the Krishi Vistar Sadan Building in IARI Campus, Pusa, New Delhi.

#### Budget Outlay for Mahalanobis National Crop Forecast Centre

Annual requirement of funds (recurring and non-recurring) for establishment and running of the Centre will be met from the approved revised outlay of Central Sector Plan Scheme "Forecasting Agricultural Output Using Space Agro-meteorology & Land based observations (FASAL).

THOMAS VARGHESE, Director

New Delhi, the 27th April 2012

No. 38011/08/2011-E-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Seema Sethi, Assistant Director

(Cooperation) in the Department of Agriculture & Cooperation, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th April, 2012.

K. SANJAYAN, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES

New Delhi, the 23rd April 2012

No. A-19011/9/2012-Admn.-I—In view of the recommendation of the Union Public Service Commission vide their letter No. 3/35(24)/2010-ADT.2 dated 09.01.2012, the President is pleased to appoint Dr. Akhilesh Kamal, Director (Information and Communication) in the Scale of Pay of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- in the Grade Pay of Rs. 7,600/- + N.P.A. (as admissible) w.e.f. the afternoon of the 20th April, 2012 in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

2. He is hereby directed to report to Joint Secretary (Livestock Health).

D. BANERJEE, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION

New Delhi, the 24th April 2012

No. A-19011/11/2009-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training' Order No. 9/20/2012-EO(SM-I) dated 17th April, 2012, with the approval of competent authority of Department of Agricultural Research & Education Shri Rajiv Mehrishi, IAS (RJ : 78), Additional Secretary is hereby appointed as Special Secretary with effect from 17.04.2012 on in-situ basis.

VIJAY SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 17th April 2012

No. A-32013/1/2011-E-III—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Senior Principal Private Secretary for the year 2011 against Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's Order No. 2/4/2011-CS-II (A) dated 16.02.2012, the President is pleased to appoint Ms. Krishna Kumari, a regular Principal Private Secretary of CSSS to the grade of Senior Principal Private Secretary on regular basis in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) in the Cadre Unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 09.04.2012 (FN).

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th April 2012

No. 19011/2/2012-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/31/2011-EO(SM-I) dated 27.02.2012, the President is pleased to appoint Dr. A. K. Dubey, IAS (KL-82) as Joint Secretary in the Ministry of Tribal Affairs on lateral transfer basis from the Ministry of Panchayati Raj in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. afternoon of 30.03.2012 for the balance period of his central deputation tenure of five years i.e. upto 29.09.2016 or until further orders, whichever is earlier.

SUBRATA DAS, Dy. Secy. (Admn.)

The 18th April 2012

No. 12034/5/2011-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/1/2012-EO(MM-I) dated 12.04.2012, the President is pleased to appoint Shri Paolienlal Haokip, Deputy Secretary, Lok Sabha Secretariat as Officer on Special Duty (OSD) to Hon'ble Minister of Tribal Affairs (Shri V. Kishore Chandra Deo) at Deputy Secretary level in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/-) w.e.f. 04.01.2012 and upto 21.09.2015 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

N. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

## (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 27th March 2012

No. A-12028/53/2011-Admn.-II—The President is pleased to appoint Shri Amit Prakash, a regular Assistant Director of Central Secretariat Official Language Service, in National Archives as Deputy Director (Official Language), in the Department of Telecommunications, a Group 'A' Gazetted post, in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 16.02.2012 or till the regular incumbent assumes the charge of the post or until further orders.

2. It may be noted that the ad hoc appointment to the grade will not confer upon the above officer any right for claim in the matter of seniority and/or regular promotion in

the grade. He shall stand reverted to his substantive grade on completion of the period of ad hoc appointment mentioned above unless otherwise ordered.

NIRMALA DEV, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION  
TECHNOLOGY

## (NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 30th April 2012

No. PF/226/NIC/2012-Admn.-I—Shri L. N. Raju, Director, Emp. Code : 226, National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 30th April, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Admn.-I)

No. PF/550/NIC/2012-Admn.-I—Shri Rajendra Singh, Deputy Director, Emp. Code : 550, National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 30th April, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Admn.-I)

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 23rd April 2012

No. 15/12 (F.No. 2/10/2011-Admn.-II)—The President is pleased to appoint Shri Devendra Chaudhry, IAS (UP : 1981), Joint Secretary, Ministry of Power as Additional Secretary in the Ministry of Power, in the HAG Scale of Rs. 67,000-(annual increment @3%)-79,000/-, with effect from the forenoon of the 20th April, 2012, until further orders.

P. P. BOSE, Under Secy.

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th April 2012

No. 27-DG/P(1)/2010-EC-II/EW-I—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Chandra Shekhar Prasad, Director General, Central Public Works Department (CPWD), New Delhi retires from Government service with effect from 30.04.2012 (AN).

J. S. RAWAT, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012